

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2217
गुरुवार, 04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु राज्य के प्रस्ताव

2217. श्री के.आर.एन. राजेश कुमार:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य के पर्यटन विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं
- (ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों और इनमें अनुरोधित निधि का ब्यौरा क्या है
- (ग) इन प्रस्तावों और इन पर लिए गए निर्णयों की स्थिति क्या है
- (घ) तमिलनाडु को ये निधि कब तक संवितरित की जाएगी और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ) : पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने, प्रचालनात्मक व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

इसके अलावा, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार योजना (डीपीपीएच) के अंतर्गत मेलों/उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए तमिलनाडु राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

तमिलनाडु राज्य के लिए डीपीपीएच योजना के अंतर्गत मेलों/उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वदेश दर्शन, प्रशाद योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

तमिलनाडु राज्य के प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 04.08.2022 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न प्रश्न सं. 2217 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
वर्ष 2016-17					
1.	तमिलनाडु	तटीय परिपथ	(चेन्नई-ममल्लापुरम - रामेश्वरम - मनपदु - कन्याकुमारी) का विकास	73.13	69.48

प्रशाद योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत	निर्मुक्त राशि
1.	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास	2016-17	13.99	13.99
2.	तमिलनाडु	वेल्लकांनी का विकास	2016-17	4.86	4.86

आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार योजना (डीपीपीएच) के तहत मेलों/उत्सवों और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	वर्ष	मेलों और उत्सवों के नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
तमिलनाडु	2015-16	तमिलनाडु के मामल्लापुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन	8.00	8.00
	2016-17	मामल्लापुरम में भारत नृत्य महोत्सव	25.00	25.00
	2017-18	मामल्लापुरम में भारत नृत्य महोत्सव	25.00	25.00
	2018-19	मामल्लापुरम में भारत नृत्य महोत्सव	25.00	25.00
	2019-20	भारतीय नृत्य महोत्सव- दिसंबर (i) कुमारी महोत्सव (ii) पर्यटन सांस्कृतिक महोत्सव	50.00	50.00
	2021-22	मामल्लापुरम में भारत नृत्य महोत्सव	25.00	25.00
